

बढ़ता राजस्थान

Since : 2004

कदम बढ़ाएं, सच के साथ

वर्ष : 15 | अंक : 26

जयपुर | गुरुवार, 28 नवम्बर, 2024

मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी संवत्-2081

भारत व राज्य सरकार से विज्ञापनों के लिए स्वीकृत | मूल्य : ₹2 | पृष्ठ : 12

www.badhatarajasthan.in | badhatarajasthan@yahoo.com | badhatarajasthan.dainik | badtarajasthan

सीएम पद की आज शपथ लेंगे हेमंत सोरेन राहुल गांधी और केजरीवाल सहित ये नेता होंगे शामिल



बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। झारखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को शपथ ले सकते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव सहित इंडिया गूट के शीर्ष नेता 28 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। शानदार वापसी करते हुए, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन शनिवार को झारखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता में आया। 81 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन ने 56 सीटें जीतीं।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी प्रयासों के बावजूद, जो केवल 24 सीट हासिल कर सकी। सोरेन ने भाजपा के गमलियाल हेमंत सोरेन को 39,791 मतों के अंतर से हराकर बरहट सीट बरकरार रखी। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। राज्य में इंडिया ब्लाक के नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने के तुरंत बाद सोरेन ने रविवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया।

राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले सोरेन अपनी पत्नी कल्पना के साथ अपने दादा सोबरन सोरेन को उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए रायगढ़ जिले में अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे।

छात्र संघ की जगह युवा संसद के गठन पर विचार करें विश्वविद्यालय : योगी



बढ़ता राजस्थान

प्रयागराज (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में अच्छे और पढ़े लिखे युवाओं के आने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आह्वान दोहराते हुए बुधवार को कहा कि विश्वविद्यालयों को यह विचार करना चाहिए कि छात्र संघ की जगह क्या युवा संसद का गठन कर सकते हैं। यहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, "इस युवा संसद के लिए हर कक्षा में तय होना चाहिए कि पहले ही वर्ष में कोई छात्र चुनाव लड़ने के लिए ना आने पाए। उन्होंने कहा, हर कक्षा में पहले वर्ष प्रतिनिधि चुने जाएं और फिर उन प्रतिनिधियों में तय किया जाए कि कौन दूसरे या तीसरे वर्ष या फिर स्नातकोत्तर कक्षा में चुनाव के मैदान के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं और कौन चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, जीवन के अलग-अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले वे छात्र समाज को दिशा दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक घटना साझा की जिसमें उन्हें एक विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति मिला जिसकी उम्र बहुत अधिक थी। तभी उन्हें किसी ने बताया कि अमुक व्यक्ति छात्र संघ का उपाध्यक्ष है और उसका बेटा उसी विश्वविद्यालय में बीए का छात्र है।

प्लेन में यात्री की तबीयत बिगड़ी, जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग



बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। जयपुर एयरपोर्ट पर बुधवार दोपहर 2:23 बजे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई-402 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। प्लेन देहरादून से पुणे जा रहा था। इस दौरान एक पैसंजर को पैनिक अटैक आ गया। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग करवाई और यात्री को उतारा। करीब 2 घंटे बाद प्लेन जयपुर से टेकऑफ हुआ। इससे करीब एक महीने पहले 25 अक्टूबर को विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट UK-829 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। यह प्लेन दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था। जयपुर के करीब एक यात्री की तबीयत बिगड़ने पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी।

इटली से जयशंकर की दो टूक.... चीन के कर्जे में दबकर बिगड़ती जा रही कई देशों की स्थिति

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। इस चिंता ही वजह है कि दुनिया के सात सबसे अमीर देशों के संगठन जी-7 ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के चार प्रमुख देशों भारत, जापान, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों के साथ विशेष बैठक की, जिसमें भावी सहयोग की संभावनाओं पर विमर्श किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और यहां सहयोग की व्यापक संभावनाएं भी बन रही हैं। क्राइ (भारत, अमरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया का संगठन) को व्यवहारिक बताते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में



रणनीतिक, सामुद्रिक और कारोबारी क्षेत्र में और अन्य दूसरे देशों के साथ गहरे सहयोग की जरूरत बताई। उन्होंने भावी सहयोग के छह प्रमुख जरूरतें बताईं। जयशंकर ने सामुद्रिक, सेमीकंडक्टर और आपूर्ति चेन में ज्यादा सहयोग को पहली जरूरत के तौर पर

गिनाया। दूसरी जरूरत उन्होंने खराब उधारी और अवहनीय कर्ज से बचने को बताया। यहां उन्होंने चीन का नाम तो सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के कई देश चीन व कुछ वैश्विक संस्थाओं के कर्ज में डूब चुके हैं और उनकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है।

तीसरी जरूरत के तौर पर जयशंकर ने गवर्नेंस, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक स्रोतों के दोहन के क्षेत्र में इन क्षेत्र के देशों की क्षमता बढ़ाने की है। चौथी, वैश्विक स्तर पर अच्छे कार्यों के लिए साझा तौर पर काम हो और सभी देशों को शामिल किया जाए। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन हो ताकि एक दूसरे के हितों को रक्षा हो। इसके बाद उन्होंने अंतिम जरूरत के तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर नीति बनाने वाले देशों के पास कई तरह के विकल्प को गिनाया।

पिछली बैठक में भी हुई चर्चा

संदर्भ रहे कि सितंबर, 2024 में भी क्राइ देशों के शीर्ष नेताओं की अमेरिका में हुई बैठक में पहली बार समुद्री सुरक्षा सहयोग को व्यापक करने पर विचार किया गया था। इसमें पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी कानून सम्मत वैश्विक व्यवस्था और सभी देशों की संप्रभुता का आदर करने पर जोर दिया था।

चीन नहीं करता अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन

दरअसल, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन नहीं करता है और यही वजह है कि भारत व क्राइ वैश्विक कानून के पालन पर जोर देते हैं। उधर, इस क्षेत्र में चीन के साथ फिलीपींस व दूसरे देशों की स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है।

पद की लालसा नहीं : जब मुख्यमंत्री था तब मोदी साथ खड़े रहे, जो फैसला लेंगे स्वीकार : एकनाथ शिंदे



बढ़ता राजस्थान

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र का अगला सीएम भाजपा का हो सकता है। बुधवार को ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है। मुझे पद की लालसा नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे। अब वो जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा।

शिंदे ने कहा- मैंने कल (26 नवंबर) मोदी जी को फोन किया था हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मन में कोई अडचन न लार्। हम सब एनडीए का हिस्सा हैं। भाजपा की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा, हमें मंजूर होगा। कोई स्प्रीड ब्रेकर नहीं है। हम सरकार बनाने में अडचन नहीं बनेंगे। शिंदे बोले, मैं कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझता। मैंने हमेशा आम आदमी

बनकर काम किया। यह जनता की विजय है। समर्थन के लिए जनता को धन्यवाद। इलेक्शन के वक्त सुबह 5 बजे तक काम करते थे। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की।

कहा : मैं आम आदमी, कभी खुद को सीएम नहीं समझा एकनाथ शिंदे ने कहा, आम आदमी को क्या समस्या आती है, वो मैं समझता हूं। मैंने कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने हमेशा आम आदमी बनकर काम किया। मैं देखता आ रहा हूं कि कुटुंब को कैसे चलाया जाता है। मैंने सोचा था कि जब मेरे पास अधिकार आएं तो जो परेशान हैं, उनके लिए योजनाएं लाएंगे।

मैं आपका लाडला भाई, ये लोकप्रियता ज्यादा अच्छी शिंदे ने कहा, जब सीएम था, जब लोगों को लगता था कि हमारे बीच का मुखमंत्रि है।

सीएम योगी की सख्ती का असर संभल हिंसा के 21 बवालियों की तस्वीरें सार्वजनिक, 250 के पोस्टर जारी

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। संभल हिंसा मामले में दिए गए सीएम योगी के निर्देशों का असर साफ दिखने लगा है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बीती 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद गिरफ्तार किए गए 27 में से 21 लोगों के फोटो और नाम पुलिस ने बुधवार को सार्वजनिक किए। इन सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हैं। इसके साथ ही पुलिस ने बवाल करने वाले डाई सी से अधिक उपद्रवियों के पोस्टर सीसीटीवी फुटेज व वीडियो के आधार पर जारी किए हैं। शहर में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है लेकिन प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं अभी 48 घंटे और बंद रखने का निर्णय लिया है। उधर, मंगलवार को स्कूलों में बच्चों की संख्या और बढ़ी। साथ ही माहौल सामान्य दिखने लगा। बाजारों में रौनक भी लौटने लगी है। मंडी में किसानों और व्यापारियों की चहल-पहल बढ़ गई। इस सब के बाद भी जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में अब भी तनाव है। पुलिस और प्रशासन की बार-बार अपील के बाद कुछ दुकानें भी खुलीं। हालांकि ग्राहकों के न आने से सत्राटे जैसी ही स्थिति रही। पुलिस-प्रशासन ने शाही जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल 24 घंटे इलाके में तैनात है। इसके साथ ही नियमित गश्त से लोगों को भरोसा



इंटरनेट ठप होने से कई सेवाओं पर असर

संभल सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा और बंद कर दी है। विगत तीन दिनों से इंटरनेट सेवा बंद होने से अब करोड़ों का कारोबार प्रभावित होने के साथ विकास कार्य ठप पड़े हैं। बैंक, डाकघर, कोषागार, रजिस्ट्री कार्यालय पर कामकाज पूरी तरह से ठप है। जिससे आम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। संभल डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा, संभल एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगा है। प्रशासन, व्यापारियों, और आम जनता के बीच सामंजस्य बनाया जा रहा है। शांति का माहौल है। इंटरनेट सेवाएं और अगले 48 घंटे तक के बंद रखी गई हैं।

दिलाने की कोशिश की जा रही है। डीआईजी मुनिरान जी, डीएम डा. राजेंद्र पेंसिया, एसपी केके विश्नोई ने खुद भी बुधवार को क्षेत्र में भ्रमण किया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की है। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने सहयोग दिखाकर हालात सुधारने की पहल की है। जामा मस्जिद के आसपास अब भी कई घरों में ताले

लटक रहे हैं। कुछ परिवार बवाल के डर से हिंसा वाले दिनों के बाद से ही अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं। आने वाले शुक्रवार को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है। इसे देखते हुए लोगों से जुमे को नमाज अपने आसपास की मस्जिदों में ही करने की अपील भी की जा रही है। पुलिस जुमे की नमाज के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की तैयारी कर रही है।

संसद सत्र का दूसरा दिन

अडाणी मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा जारी... राहुल बोले- उन्हें जेल में होना चाहिए, सरकार बचा रही

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को दूसरा दिन था। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडाणी मुद्दे पर हंगामा किया। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ।

विपक्ष ने यूपी के संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया। जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडाणी पर अमेरिका में 2 हजार करोड़ की रिश्त देते का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। दरअसल, 21 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स अर्टॉन्स ऑफिस की ओर से कहा गया था कि अडाणी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (करीब 2200 करोड़ रुपए) की रिश्त दी या देने की योजना बना रहे थे। इस पर बुधवार को अडाणी गुरु ने साफ किया है कि चेयरमैन गौतम अडाणी, उनके भतीजे सागर अडाणी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर अमेरिका में रिश्त से जुड़े कोई आरोप नहीं हैं। अडाणी गुरु के मुताबिक, कई मीडिया हाउस में चल रही खबरें गलत हैं। उधर, प्रियंका गांधी 28 नवंबर को सांसद पद की शपथ लेंगी। वह केरल के वायनाड से सांसद हैं। बुधवार को उन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिला।



लोकसभा की कार्यवाही भी 28 नवंबर तक स्थगित

दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो सदन में फिर हंगामा हुआ। 10 मिनट कार्यवाही चली। बाद में स्पीकर ने पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर बोले केंद्रीय मंत्री- सख्त कानून बने

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट की जांच करने के लिए कानूनों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, हमारे देश और उन देशों की संस्कृति में बहुत अंतर है जहां से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि संसद की स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए और इस बारे में सख्त कानून बनाए जाए।

राहुल बोले- अडाणी को जेल में होना चाहिए, सरकार बचा रही

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आपको लगता है कि अडाणी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है कि वह आरोपों से इनकार करेंगे। मुझे यह है कि जैसा कि हमने कहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को छोटे-छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और सज्जन (गौतम अडाणी) पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उन्हें बचा रही है।

जम्मू के 4 जिलों के 56 ठिकानों पर छापेमारी लश्कर-जैश से जुड़े होने का शक था, कई सदियों गिरफ्तार

बढ़ता राजस्थान

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दो दिनों में 56 आतंकवादी ठिकानों पर रेड कर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई सदियों आतंकवादियों और ग्राउंड वर्क्स को गिरफ्तार किया है। जम्मू रीजन के चार जिलों में हुई छापेमारी में पुलिस को कई हथियार, कैश, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज बरामद हुए हैं। इंटीलिजेंस के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को राजौरी



जिले में घरों सहित 9 इलाकों की कई लोकेशन पर छापे मारे। इसके अलावा दो दिनों में पुंछ की 12, उधमपुर की 25 और रियासी की 10 लोकेशन पर पुलिस ने रेड की। जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस

आनंद जैन ने कहा कि जब किए गए सामान और जानकारी के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर ऐसे और ऑपरेशन किए जा सकते हैं।

King Store

Prop. D.K.MEHTA

25, Tarkeshwar Market
Gopal Pura More, Jaipur
P.I. 9828073926



फिलिपींस के पिथेक ओर एफडीए की टीम ने किया राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का एकदिवसीय दौरा

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च, पंचकर्म एवं अन्य पद्धतियों की जानकारी को लेकर फिलिपींस इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल एंड ऐल्टरनेटिव हेल्थ केयर ओर फूड ऐंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन फिलिपींस की टीम ने जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर का एकदिवसीय दौरा किया। कुलपति डॉ. संजीव शर्मा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। रसाशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना विभाग के प्रमुख डॉ. अनुपम श्रीवास्तव ने

फिलिपींस के प्रति मंडल को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानक विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा में किया जा रहे कार्यों और रिसर्च की जानकारी दी। टीम के सदस्यों ने एनआईए के विभागाध्यक्षों से चर्चा की और उन्हें एफडीए और पीआईटीएचएसी की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयुर्वेद में रिसर्च को लेकर पीआईटीएचएसी के

साथ एमओयू किया गया था। इस एमओयू के अंतर्गत पिथेक में ड्रा टेस्टिंग लैब की स्थापना करने के लिये जानकारी लेने और फिलिपींस में सहयोगात्मक तरीके से आयुर्वेद केंद्र खोलने की संभावनाओं का रास्ता खोलेंगे। एक दिवसीय दौरे के दौरान फिलिपींस के पिथेक ओर सख्त की टीम के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ओपीडी, पंचकर्म विभाग, सेंट्रल लैब, सिम्युलेशन लैब, फार्मसी विभाग, एनाटॉमी विभाग, ड्रग लैब के साथ अन्य विभागों की जानकारी ली।

तीन पीटीआई और एक व्याख्याता को एसओजी ने किया गिरफ्तार

हेल्प लाइन पर मिली जानकारी के बाद पीटीआई और व्याख्याता को पकड़ा

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को तीन पीटीआई और एक व्याख्याता को गिरफ्तार किया है। इन के खिलाफ एसओजी को हेल्पलाइन पर शिकायत मिली थी कि चारों ने डमी कैडिडेट की मदद से परीक्षा पास की थी। इनके द्वारा पेश की गई बीपीएड की डिग्री भी फर्जी निकली। इस पर एसओजी ने तीनों के दस्तावेजों की जांच की, जांच में पुष्टि होने पर चारों को बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसओजी जयपुर के व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर शिकायत मिली थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षक सीधी भर्ती 2022 में कुछ लोग गलत चीजों का इस्तेमाल कर परीक्षा में पास हुए और नौकरी ली। जिस पर एसओजी ने

स्वरूपा राम निवासी गुडामलानी जिला बाडमेर हाल शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाखड़ों की ढाणी, भीमलत धोरोमना जिला बाडमेर, भारमल राम निवासी गांव धानता पुलिस थाना सांचोर जिला सांचोर हाल शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुडा, रानीवाडा, जिला सांचोर, लादुराम निवासी दातोबास तहसील भीममाल जिला जालौर हाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वनानी भीलों की ढाणी, गुडामलानी, बाडमेर की जांच की। जांच में प्रमाणित हो गया कि इन लोगों ने अपनी जगह परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाया। तीनों आरोपियों ने उस दौरान आवेदन पत्रों में अन्य विश्वविद्यालय की बीपीएड डिग्री भर कर अन्य विश्वविद्यालय की बीपीएड डिग्री और अंक तालिका के दस्तावेज सत्यापन के समय पेश कर पीटीआई की नौकरी प्राप्त की। एसओजी ने जब इन डिग्री और डमी अभ्यर्थी

डमी कैडिडेट की मदद से की थी परीक्षा पास



के पेपर में बैठने की जांच की तो यह पुष्टि हो गई। जिस पर इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी स्वरूपा राम को जिला पुलिस अधीक्षक जालौर ज्ञानचन्द्र यादव एवं आरोपी लादुराम एवं भारमल को जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर नरेंद्र मीणा के निर्देशन में टीम ने डिटेन कर एसओजी के सुपुर्द किया। जिस पर एसओजी ने दोनो को कोर्ट में पेश कर 7 दिन का रिमांड लिया है। वहीं

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2022 के सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को आयोजित की थी। उस में सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दी गई थी एवं इस विषय की परीक्षा 29 जनवरी 2023 को दोबारा 10.30 एएम से 12.30 पीएम तक आयोजित

की गई थी। 29 जनवरी 2023 को सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा आरोपी राजेन्द्र कुमार के स्थान पर कमल विश्वासी निवासी राजीव नगर पुर, जिला सांचोर ने डमी परीक्षार्थी के रूप में दी थी। कमल विश्वासी वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय अरणाग (जालौर) में व्याख्याता (जीव विज्ञान) के पद पर था। एसओजी ने कमल विश्वासी को गिरफ्तार किया है। उसे भी रिमांड पर लिया गया है।

जयपुर में शॉटगन इंडिया ओपन प्रतियोगिता शुरू

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए क्वालीफाई करने का अवसर

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरआई) द्वारा आयोजित इंडिया ओपन शॉटगन प्रतियोगिता जयपुर में शुरू हो गई है और जो 2 दिसंबर 2024 तक चलेगी। यह प्रतिष्ठित आयोजन राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने के इच्छुक एथलीटों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालीफायर के रूप में काम करेगा, जिसमें देश भर के 329 निशानेबाज हिस्सा लेंगे।

प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की दो श्रेणियां हैं: राष्ट्रीय नियम (एनआर) श्रेणी उन एथलीटों के लिए है जिन्होंने अभी तक राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालीफाई नहीं किया है और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) श्रेणी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ही राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में अपना स्थान बना लिया है। यह



कहा, शॉटगन में इंडिया ओपन प्रतियोगिता भारत में निशानेबाजी खेलों को विकसित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के हमारे निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह टूर्नामेंट न केवल राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता मार्ग प्रदान करता है, बल्कि हमारे निशानेबाजों को अपने कौशल का परीक्षण करने और उन्हें निखारने के लिए एक प्रतिस्पर्धी मंच भी देता है।

उभरती प्रतिभाओं और अनुभवी एथलीटों दोनों के प्रतिस्पर्धा करने से, हम भारतीय निशानेबाजी के भविष्य को एक्शन में देख रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिभागियों की प्रभावशाली सूची के साथ, यह टूर्नामेंट तीव्र प्रतिस्पर्धा और उच्च स्तरीय प्रदर्शन का वादा करता है, जो 2 दिसंबर को एक रोमांचक समापन के लिए मंच तैयार करता है।

वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एक हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भरतपुर टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी प्रथम श्रेणी रूपवास जिला भरतपुर के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सौरभ कुमार गुप्ता को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की भरतपुर टीम को परिवारी ने शिकायत दी कि उसकी चार भैंसों के चारा-

पानी के लिए आवेदित लोन फार्म को सत्यापित करने की एवज में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सौरभ कुमार गुप्ता को ओर से प्रति पशु 500 रुपए के हिसाब से 2 हजार रुपए की रिश्वत मांग कर रहा है। जिस पर एसीबी भरतपुर टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कर ट्रेप की कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सौरभ कुमार गुप्ता को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपित वरिष्ठ पशु चिकित्सा



अधिकारी ने शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवारी से एक हजार रुपए की रिश्वत ली जा चुकी है।

जयपुर में अवैध कॉलोनियों का निर्माण नाकाम, जेसीबी और मजदूरों की मदद से 70 कॉलोनियां ध्वस्त की गईं

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जून-13 और जून-11 में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को पूरी तरह नाकाम कर दिया। हाल ही में, जेडीए ने करीब 34.5 बीघा कृषि भूमि पर तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। इसी तरह, जून-11 में लगभग 22 बीघा भूमि पर दो अवैध कॉलोनियों को समाप्त किया गया और ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर में लगभग 7 बीघा सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया।



अवैध कॉलोनी निर्माण के खिलाफ निरंतर अभियान

जेडीए की प्रवर्तन टीम ने अक्टूबर 2024 से अब तक कुल 70 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है, और 66.5 बीघा सरकारी भूमि और 6 गैर मुमकिन आम रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। इन कार्योंवाहियों की निगरानी मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी और उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय द्वारा की गई थी। इस प्रकार, जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी निर्माण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखी है।

जयपुर (का.स.)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जून-13 और जून-11 में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को पूरी तरह नाकाम कर दिया। हाल ही में, जेडीए ने करीब 34.5 बीघा कृषि भूमि पर तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। इसी तरह, जून-11 में लगभग 22 बीघा भूमि पर दो अवैध कॉलोनियों को समाप्त किया गया और ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर में लगभग 7 बीघा सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया।

मजदूरों की मदद से इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया और कॉलोनी बनाने के प्रयास को विफल कर दिया। इसके अलावा, जून-13 के क्षेत्राधिकार में ग्राम मोटू का वास और खोरा श्यामदास के पास, करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर श्याम वटिका विस्तार के नाम से बनाई गई सड़कें और बाउंड्रीवाल भी ध्वस्त की गईं।

जून-11 में भी ध्वस्त की गईं अवैध कॉलोनियां : जून-11 के क्षेत्राधिकार में ग्राम बगरू तहसील सांगानेर में जगन्नाथ सिटी और जयश्री श्याम नामक अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था, जिसे जेडीए की टीम ने पहचान कर ध्वस्त किया। इन कॉलोनियों में सीमेंट की ब्लॉक सड़कें, बाउंड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माण शामिल थे। इसके साथ ही, ग्राम बगरू में खसरा नं.

मानसरोवर के इंजीनियर्स कॉलोनी में दो दिवसीय नवीन वेदी शिलान्यास समारोह आज से

बढ़ता राजस्थान

सुपाश्र्वमती माताजी और गणिनी आर्थिका रत्न गौरवमती की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से किया जा रहा है। स्थापक सदस्य कमलचंद्र छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को शाम 7.30 बजे से गणमोकार जाप्यानुष्ठान और भक्तामर स्रोत पाठ से शिलान्यास समारोह प्रारंभ किया जाएगा जिसमें इंजीनियर्स कॉलोनी के

समाजबंधु सहित मानसरोवर, टोंक रोड, प्रताप नगर, श्याम नगर, दुर्गापुरा से भी बड़ी संख्या में समाजबंधु सम्मिलित होंगे। शुरुवार को दूसरे दिन प्रातः 9 बजे से नवीन वेदी भूमि का मंत्रोच्चार और अष्टद्वयों के साथ शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें श्रेणी परिवारजनों द्वारा स्वर्ण, रजत और ताम्र शिलाओं की नींव बाल ब्रह्मचारी धर्मचंद्र शास्त्री (गुडगांव) और जिनेश

भैया (चीकू) के निर्देशन में स्थापित की जाएगी। इस दौरान अशोक जैन खेड़ली वाले, सीए मनीष छाबड़ा, सपन छाबड़ा, रवि छाबड़ा, मयंक जैन, अनिल जैन बोहरा, मनीष जैन, महावीर जैन, गौरव जैन, अभिषेक जैन बिट्ट, प्रमोद बाकलीवाल, जेके जैन, पुष्पेंद्र जैन, अशोक जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण सम्मिलित होंगे।

जिला कलक्टर के निर्देश पर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई

रसोई गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण एवं अवैध रीफिलिंग का किया पर्दाफाश, 32 घरेलू गैस सिलेंडर और 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर भी की जब्त

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (का.स.)। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में रसद विभाग के प्रवर्तन जांच दल ने जयपुर के सांगानेर के सुखदेवपुरा में बड़ी कार्रवाई की अंजाम देते हुए रसोई गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण एवं अवैध रीफिलिंग का पर्दाफाश किया। जिला रसद अधिकारी श्री त्रिलोक चंद मीणा ने



बताया कि प्रवर्तन दल ने मौके से 2 मोटर एवं 31 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किये हैं। उन्होंने बताया कि टीम ने नाटाणीवाला में चौखी ढाणी के पीछे एक मकान में छाप मारा और कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी महेश कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक गोविन्द दान देहा, अशोक कुमार, सौरव गुर्जर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

हर घर को शुद्ध पेयजल और हर खेत को सिंचाई का पानी पहुंचाना हमारा संकल्प : ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर

- अधिशाषी अभियंता पीएचईडी के कार्यालय का भी हुआ शुभारंभ
- ऊर्जा मंत्री ने किया 1.90 करोड़ से अधिक के कार्यों का शिलान्यास

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज सीमलिया में 126 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण

बढ़ता राजस्थान

शिलान्यास करेंगे। साथ ही, जल संसाधन विभाग के द्वारा स्वीकृत 1.69 करोड़ रुपए की लागत से किए गए डहड़ल लघु सिंचाई परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ऊर्जा मंत्री के विशेष अधिकारी राजेंद्र नागर ने बताया कि नागर गुरुवार को सुबह 10 बजे पोलाई, मध्याह्न 12 बजे रेलगांव तथा अपराह्न 3 बजे चौमालियान ग्राम पंचायत में पहुंचेंगे। इस दौरान श्रीनागर बजट घोषणा के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत 55 करोड़ रुपए की लागत से डोटी बालाजी की थक से पावड़ा धोरी सुल्तानपुर निमोदा उजाड़ सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। वहीं जनकपुर गढ़ेपान में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वीकृत 55 करोड़ रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का

कोटा (का.स.)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को सीमलिया क्षेत्र के दौर पर रहेंगे। इस दौरान वे क्षेत्र में 126 करोड़ से अधिक राशि के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ऊर्जा मंत्री के विशेष अधिकारी राजेंद्र नागर ने बताया कि नागर गुरुवार को सुबह 10 बजे पोलाई, मध्याह्न 12 बजे रेलगांव तथा अपराह्न 3 बजे चौमालियान ग्राम पंचायत में पहुंचेंगे। इस दौरान श्रीनागर बजट घोषणा के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृत 55 करोड़ रुपए की लागत से डोटी बालाजी की थक से पावड़ा धोरी सुल्तानपुर निमोदा उजाड़ सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। वहीं जनकपुर गढ़ेपान में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वीकृत 55 करोड़ रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का



स्वीकृत 70.24 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले कक्षा कक्षों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। साथ ही, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत 1 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक की लागत से किए जाने वाले सांगोद नगर की पुरानी

और जर्जर पेयजल पाइपलाइन को बदलने के कार्य का भी शिलान्यास संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, प्रधान जयवीर सिंह, उप प्रभारी ओम अहूसा, मंडल अध्यक्ष गोपाल मोहन, देहात जिला उपाध्यक्ष दिलीप गर्ग, नगर पालिका

में नेता प्रतिपक्ष रामावतार वर्मा, क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष ओम मेहता, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, अधीक्षक अभियंता भारत भूषण मिगलानी, एसडीएम रामावतार मोना समेत कई लोग मौजूद रहे।

बढ़ता राजस्थान
कोटा (का.स.)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को सांगोद में 1 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय सांगोद में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत नवसृजित अधिशासी अभियंता कार्यालय (जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग) की स्थापना और शुभारंभ भी किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सांगोद विधानसभा क्षेत्र में हर घर को शुद्ध पेयजल और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना हमारा संकल्प है। राजस्थान सरकार के माध्यम से इस संकल्प की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री श्रीनागर ने कहा कि कभी सांगोद कस्बे में एक मटके पानी की भी किल्लत हुआ करती थी, लेकिन हम यह प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 20 वर्षों तक सांगोद नगर में पीने के पानी की कोई समस्या ना हो। इसके लिए

आने वाले दिनों में अमृत2 योजना का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल योजना के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। परवन से पेयजल का पानी मिल सकेगा। वहीं अकावद बांध से हर खेत को पानी पहुंचाया जाएगा। जिससे खेती और किसानी समृद्धशाली बन सकेगी। नागर ने कहा कि विकास को धरातल पर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री निरंतर योजना बना रहे हैं। किसानों को पर्याप्त बिजली देने के लिए गत दस माह में निरंतर प्रयास किया गया है। सांगोद का कोई जीएसएस नहीं बचा जहां दो ब्लॉक में बिजली नहीं मिलती थी। अधिकारियों को भी निर्बाध बिना ट्रिपिंग और बिना शटडाउन के 6 घंटे बिजली देने के लिए निर्देशित किया गया है। आज भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास जगा है। उपचुनाव के परिणाम में भी इसकी झलक देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि सांगोद नगर में अधिशासी अभियंता कार्यालय खुलने से 50 किलोमीटर दूर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। समारोह के दौरान समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा विभाग) के अंतर्गत

आर एस सी ई आर टी, उदयपुर प्रशिक्षण में बूंदी जिले की टीम ने किया सराहनीय प्रदर्शन



बढ़ता राजस्थान

बूंदी (अनन्त दाधीच)। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर के तत्वावधान में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नवचेतना मोड्यूल आधारित मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण में बूंदी, डाइट द्वारा भेजे गए शिक्षक किशन लाल कटार, महावीर पंकज, GOOD TOUCH BAD TOUCH (एसआरजी) मोनिका लोधा, उम्मे इबोबा, व नीराम माथुर ने सराहनीय प्रदर्शन किया। इस प्रशिक्षण में टीम को सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में जो

विषय दिया था उसका शानदार प्रदर्शन किया। उद्घाटन सत्र टैगौर हाल, प्रथम तल, प्रशासनिक भवन, आर एस सी ई आर टी परिसर में आयोजित हुआ जिसमें स्कूल हेल्थ वेलेनेस प्रोग्राम एस आर जी शिक्षक किशन लाल कटार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की इस मौके पर डायरेक्टर प्रोफेसर-1 कमलेंद्र सिंह राणावत, प्रभागाध्यक्ष डॉ.आभा शर्मा, दिल्ली से एस आर जी जाह्नवी, सोनिया, चन्चल व राजस्थान के बांसवाड़ा, बूंदी, डोंगरपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, झालावाड़, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर जिलों के स्टेट रिसोर्स ग्रुप सदस्य उपस्थित रहे।

संयुक्त निदेशक कोटा के द्वारा पाड़लिया विद्यालय का निरीक्षण किया



बढ़ता राजस्थान

चौमहला (आबिद हुसेन)। संयुक्त निदेशक कोटा के द्वारा पाड़लिया विद्यालय का निरीक्षण किया गया। चौमहला क्षेत्र के स्थानीय विद्यालय रा उ मा वि पाड़लिया में बुधवार को संयुक्त निदेशक जेडी मेडम, तेज कंवर (कोटा) द्वारा विद्यालय निरीक्षण किया गया। मेडम ने विद्यालय की साफ-सफाई, अनुशासन, कार्यालय निरीक्षण, स्टाफ के बीच समन्वय देखा और उपस्थिति रजिस्टर, अध्यापक दैनिक डायरी भी चैक की गई। तथा विद्यालय का सकारात्मक वातावरण देख अति प्रसन्नता जाहिर की इस दौरान विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे।

मोरकला में कलेक्टर की रात्रि चौपाल कलेक्टर ने जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुन दिए आवश्यक निर्देश



कोटा (का.स.)। कनवास उपखंड की मोरकला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मंगलवार रात कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी ग्रामीणों से नियमित संवाद बनाए रखें और उन्हें योजनाओं की जानकारी दें। खंड विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान कुल 40 परिवार प्राप्त हुए। इन परिवारों में पानी भरण, पट्टे जारी करने, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली आपूर्ति, और चिकित्सालय में चिकित्सक पद रिक्तता जैसी समस्याएं शामिल थीं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान आपसी समन्वय के साथ जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि 10 के निवासियों ने पानी भरण की शिकायत की। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं वार्ड नं. 3 और 5 के निवासियों ने पट्टे जारी करने की मांग की। हालांकि, भूमि वन विभाग के अधीन होने के कारण इस पर कार्रवाई ग्राम पंचायत स्तर पर संभव नहीं हो सकती।

श्री गोविंद गौशाला जुल्मी रोड़ पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे श्रद्धालु



बढ़ता राजस्थान

रामगंज मंडी (महेश कुमार)। रामगंज मंडी श्री गोविंद गौशाला जुल्मी रोड़ नालोदिया पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिन गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा की सतता सर्वत्र व्याप्त है गोपियों को सर्वत्र श्री कृष्ण ही दिखते थे गाय बछड़े लता वृक्ष सभी में कृष्ण दिखते थे परंतु हम सांसारिक जीवों को सब अलग-अलग दिखाता है। मनुष्यों की दृष्टि नहीं बदली क्योंकि हमारी नजर असत्य की तरफ रहती है संतों की दृष्टि में सब भगवान का स्वरूप होते हैं उन्हें चारों ओर श्याम ही श्याम दिखते हैं एवं सब मंगल होता है, संतों की तरह

मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्मचर्य का पालन कर, ब्रह्म चिंतन करना चाहिए इससे शरीर में ब्रह्म तेज बढ़ता है और माया मोह हीलें पड़ जाते हैं। मन प्रकृति का अंश एवं चंचल होने से भजन में नहीं लगता एवं इधर-उधर भटकता रहता है। जीवात्मा के भगवान में लगाने से वह हरि मार्ग की ओर बढ़ती है धर्म से ज्यादा धन को, दहेज से ज्यादा दुल्हन को भजन से ज्यादा व्यसन को एवं कथा से ज्यादा काम को महत्व नहीं देना चाहिए अन्यथा अंत समय पछताना पड़ेगा जैसे कर्म करेंगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। पुत्र प्राप्ति के संबंध में आपके पूर्व के पाप पुण्य पर निर्भर करता है साथ ही श्रीमद् भागवत कथा के श्रुव

खाद की कालाबाजारी न हो, इसके लिए परिवहन व पुलिस विभाग टीम करेगी कार्यवाही



बढ़ता राजस्थान

बूंदी (अनन्त दाधीच)। जिला स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रीगुलेटरी टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर अक्षय गोदार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता, महीनेवार मांग, और अधिक मांग वाले क्षेत्रों के चिन्हीकरण पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। किसानों को समय पर खाद मिले, इसके लिए कृषि विभाग आपूर्ति करने वाली एजेंसी से समन्वय रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर खाद उपलब्ध कराई जा सके।

प्राथमिकता देते हुए खाद उपलब्ध करवाकर वितरित की जाए। साथ ही खाद वितरण की जानकारी कृषि विभाग को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए खाद वितरण के दौरान सुरक्षा संबंधी इंतजाम रखें जाएं। उन्होंने कहा कि खाद वितरण के लिए सुरक्षा संबंधी मांग प्राप्त होने पर सुरक्षा मुद्देया कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी नहीं हो, इसके लिए परिवहन व पुलिस विभाग टीम बनाकर कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद की आपूर्ति व वितरण पर नजर रखें और आवश्यकता का आंकलन कर समय पूर्व ही मांग भिजवाई जाए, ताकि समय पर किसानों को खाद उपलब्ध कराई जा सके।

बैठक में सीईओ रवि वर्मा, अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार कोटा खंड अशोक कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि महेश कुमार शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक अरुण कुमार, डीआर कॉर्पोरेटिव

विद्यालय के विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मीट में पुरस्कार से सम्मानित किया गया



बढ़ता राजस्थान

रावतभाटा (नि.स.)। रावतभाटा अखिल भारतीय अंतर प्रमाण ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय सांस्कृतिक मीट - 2024 के अंतर्गत समूह नृत्य प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यालय क्रमांक 4 के विद्यार्थियों को बुधवार को प्रार्थना सभा में प्राचार्य दिलीप सिंह और उप-प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र सौंप कर सम्मानित किया गया। ज्ञातव्य है कि इन प्रतियोगिताओं में विद्यालय के होनहार विद्यार्थी कलाकारों ने जूनियर लोक नृत्य में द्वितीय, सीनियर लोक नृत्य में प्रथम, जूनियर कोरियोग्राफी नृत्य में प्रथम और सीनियर कोरियोग्राफी नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सभी विजेताओं को प्राचार्य, उप-प्राचार्य के साथ समस्त विद्यालय परिवार ने बधाई दी। प्राचार्य ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विजेताओं ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय का नाम ऊंचा किया है, यह हवाए लिए गर्व की बात है। इस सांस्कृतिक मीट के प्रभारी शिक्षक जयवर्धन भटनागर थे, जिन्होंने शिक्षकों डॉ. रिकू गुप्ता, प्रीति कुमारी, किरण कुमारी और आशा गिरी के साथ इन सभी प्रतिभागियों के लिए मेंटर्स की भूमिका निभाई थी।

एक दिवसीय भ्रमण का आयोजन

रावतभाटा (नि.स.)। सेंट पॉल स्कूल कोटा में कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों को बुधवार को ऑक्सिजन पार्क व रिबर फ्रंट कोटा का भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर प्राचार्य फादर डेविड जोसफ ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों से विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति प्रेम व पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ आपस में भाई चारा व सामंजस्य की भावना का विकास होता है। सभी छात्र छात्राओं ने कक्षा अध्यापिका धन्या यशोधरन, संतोष यादव व थॉमस सर के साथ अनुशासित रहते हुए बहुत ही खुशी व उल्लास के साथ पिकनिक का आनंद उठाया।

बारां राशन घोटाले में 11 डीलरों की संपत्ति होगी कुर्क, 1.41 करोड़ की वसूली राशन के लिए आवंटित 5000 क्विंटल गेहूँ का किया गबन : वसूली के लिए 11 राशन डीलरों की संपत्ति होगी कुर्क

बढ़ता राजस्थान

अन्ता बारां (शफीक मंसूरी)। बारां जिले में राशन घोटाले में शामिल 11 राशन डीलरों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इन डीलरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को आवंटित गेहूँ का गबन करने का आरोप है। जिला प्रशासन ने रसद विभाग के माध्यम से इन डीलरों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इनसे कुल 1.41 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन राशन डीलरों ने मिलकर 5348.59 क्विंटल गेहूँ का गबन किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। विभाग ने पीडीआर एक्ट के तहत इन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें से दो डीलरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है।

रसद डीलरों पर वसूली का वितरण

- सुलोचना बाई (खरखड़ा आसन) - 422.34 क्विंटल गेहूँ का गबन, बकाया राशि 11,40,318।
- रामस्वरूप सहरिया (कवाई सालपुरा) - 367.31 क्विंटल गेहूँ का गबन, बकाया राशि 9,91,735।
- कमल कुमार शर्मा (तेल फैक्ट्री, बारां) - 410.83 क्विंटल गेहूँ का गबन, बकाया राशि 11,09,260।
- नरेंद्र सोनी (ग्राम बामला) - 253 क्विंटल गेहूँ का गबन, बकाया राशि 5,91,661।
- जोधराज पांचाल (भटवाड़ा) - 367.91 क्विंटल गेहूँ का गबन, बकाया राशि 9,93,357।

नदी में फंसे व्यक्तियों को बचाया एनडीआरएफ की टुकड़ी ने किया मॉक ऑन फ्लड

बढ़ता राजस्थान

चित्तौड़गढ़, (नि.स.)। शहर के गंभीरी नदी में पानी की आवक हो जाने पर चार लोगों के फंसे होने पर एनडीआरएफ की टुकड़ी ने मॉक पर पहुंच चारों व्यक्तियों को बचा लिया। नदी में एनडीआरएफ की चार नावों के इधर उधर चक्कर लगाने की कोई समझ नहीं पाया और उसुकतावश देखने के लिए पुरानी पुलिस पर लोगों की भीड़ लग गई। बाद में लोगों को मॉक ड्रिल की जानकारी मिली तो वे लोग राहत की सांस लेते हुए गंतव्य की ओर रवाना हुए। मॉक ड्रिल को लेकर सभी तैयारियां पूर्व में ही व्यवस्थित थी तथा मॉक पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। बुधवार सुबह 11 बजे गंभीरी नदी में नावों को इधर उधर चक्कर लगाते देख लोगों को कुछ हादसे का अंदेश हुआ। उसुकतावश कुछ लोग पुलिस से तो कुछ लोग नदी तट पर जानने को आतुर हुए। बाद में उन्हें पता चला कि आज एनडीआरएफ की टीम की ओर से मॉक ड्रिल का जा रही है। 6 एनडीआरएफ बट्टीवाली टीम के कमाण्डर राकेश सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ की ओर से अलग अलग जगह मॉक ड्रिल

की जा रही है। इसी के तहत हमारी 28 जनों की टीम मय आवश्यक उपकरणों के मंगलवार को यहां पहुंची। आज बुधवार को फहर के मध्य से गुजर रही गंभीरी नदी पर उपखण्ड अधिकारी वीनू देवल की उपस्थिति की मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के तहत एनडीआरएफ टीम को जानकारी मिली की नदी में बाढ़ का पानी आ जाने पर चार लोग फंसे गये हैं। इस पर टीम के सदस्य चार अलग अलग बोट्स पर सवार होकर चिन्हित स्थान पर पहुंचे तथा सिविल डिफेंस टीम के साथ तीन लोगों को बचाकर किनारे ले आये। एक अन्य के लिए पुनः सर्व ऑपरेशन चलाया गया तथा एक अन्य को कुछ दूरी से बचाया गया। मॉक ड्रिल को लेकर टीम ने संतोष व्यक्त किया है।

सभी कुछ पहले से ही तैयार

एनडीआरएफ की ओर से की गई मॉक ड्रिल में सभी कुछ पहले से ही तैयार रखा गया था। लगभग सवा ग्यारह बजे उपखण्ड अधिकारी वीनू देवल नदी तट पर पहुंचे तथा टीम ने मॉक ड्रिल प्रारंभ कर दिया। मॉक ड्रिल के तहत आवश्यक उपकरण, बोट्स, चिकित्सा दल, सिविल



डिफेंस की टीम सभी कुछ पहले से ही तैयार था। मॉक ड्रिल के नाम पर सिर्फ उपकरण, बोट्स, चिकित्सा दल, सिविल

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच का मांगरोल जाते वक्त किया स्वागत

बढ़ता राजस्थान

अन्ता (शफीक मंसूरी)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच का मांगरोल जाते वक्त ग्राम काचरी में स्वागत किया। काचरी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत एवं सत्कार किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप शर्मा, सुदेश शर्मा, मनमोहन यादव, पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र मेघवाल, राजमल जी मोणा, अखिलेश यादव, महावीर कुंभकार, गोविंद यादव, एवं अन्तर से पधारे संत श्री राम कानर दास जी, वैशम्पायनजी गोतम, महावीर



मुकेश दाधीच को मांगरोल जाते वक्त ग्राम काचरी में स्वागत किया। काचरी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत एवं सत्कार किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप शर्मा, सुदेश शर्मा, मनमोहन यादव, पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र मेघवाल, राजमल जी मोणा, अखिलेश यादव, महावीर कुंभकार, गोविंद यादव, एवं अन्तर से पधारे संत श्री राम कानर दास जी, वैशम्पायनजी गोतम, महावीर

बाल विवाह की रोकथाम के लिये जिला कलेक्टर ने दिलाई शपथ, भारत बनेगा बाल विवाह मुक्त

बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (विष्णुदत्त धीमान)। बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम बुधवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा दिल्ली विज्ञान भवन से संपूर्ण देश के जिला स्तरों पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित हुआ। बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत ने कलेक्टर परिसर में अधिकारियों, कार्मिकों व आमजन को बाल विवाह के पूर्णतया रोकथाम सुनिश्चित करने व बाल विवाह नहीं करने देने की शपथ दिलाई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर अभियान चला कर सकारात्मक दिशा में प्रयासरत है इसके तहत अभी तक लगभग 2 लाख से



ज्यादा बाल विवाह को रोकना शपथ है। उन्होंने कहा कि स्वयं के आस पड़ोस व परिवार में बाल विवाह को रोकना शपथ प्रतिशत सुनिश्चित करें। कहीं भी बाल

उम्र के बाद ही परिवारजन बच्चों की विवाह करें। बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम वर्तमान में 'जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेंस नेटवर्क' के तहत जन जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणाम से जागरूक कर सके। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम के पोस्टर का भी विमोचन किया। यह पोस्टर संपूर्ण जिले में मुख्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावतिया, उपखंड अधिकारी गौरव बुढ़ानिया, तहसीलवार हनुत रावत, आयुक्त नगर परिषद दलीप पुनिया सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कार्मिक व आमजन मौजूद थे।

डॉ. नरेंद्र मेघवाल बने शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल के नए पीएमओ

बढ़ता राजस्थान

अन्ता / बारां (नि.स.)। बारां 7 शहर स्थित शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल के नए पीएमओ डॉ. नरेंद्र मेघवाल होंगे। इस संबंध में कलेक्टर रोहितोश सिंह तोमर ने आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर रोहितोश सिंह तोमर की ओर से जारी आदेशों के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से सहायक आचार्य मेडिसिन डॉ. नरेंद्र कुमार मेघवाल को शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर लगाया है।



खनिज विभाग के अधिकारियों ने 17 खातेदारों के विरुद्ध पुलिस में दर्ज कराया मामला

बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (विष्णुदत्त धीमान)। जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत अवैध अतिक्रमण, खनन व परिवहन के विरुद्ध पदभार ग्रहण करने के पश्चात से ही निरंतर सख्ती बरत रहे हैं। इसी के तहत जिला कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा लगभग 23 लाख 50 हजार की राशि का बड़ा जुर्माना लगाया गया। खनिज विभाग के एम्पई जगदीश मेहरावत ने बताया कि गत दिनों शिकायत के आधार पर जांच के दौरान मसूदा तहसील के राजस्व ग्राम कानाखेड़ा के ग्राम कुंडिया में मौके पर पहुंचने पर खनिज क्वार्टर फेल्सपार का ताजा खनन किया जाना पाया गया। इस पर विभाग द्वारा मौके पर जीपीएस फोटो लेकर हल्का पटवारी को मौके पर बुलाया गया। पटवारी की जांच पर उक्त भूमि खसरा संख्या 522 ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा ब्यावर में आती है जो कि खातेदारी है। खनिज विभाग द्वारा जांच करने पर उक्त खसरे में एक खनन पिट मिला जिसमें फेल्सपार खनिज का ताजा खनन करना पाया गया। खनिज विभाग द्वारा जीपीएस एवं फोती की सहायता से खनन का मापन किया गया एवं गणना करने पर लगभग 1958 टन खनिज का अवैध खनन कर बेचान किया जाना पाया गया। इस पर खनिज विभाग द्वारा अमना पुत्री निजाम सहित 17 अन्य खातेदारों के विरुद्ध सदर थाना ब्यावर में एफआईआर दर्ज कराई गई एवं फेल्सपार की रॉयल्टी 120 रुपए प्रति टन तथा इसकी 10 गुना वसूली योग्य राशि लगभग 23 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। और विभाग द्वारा जांच करने पर कोई भी खनन पट्टा, एसीटीपी, टीपी इत्यादि स्वीकृत नहीं किया गया। खनिज विभाग द्वारा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई जिस पर पुलिस विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

जिला कलेक्टर के निर्देशो से हआ मुकदमा दर्ज, सहकारी समिति के सहायक व्यवस्थापक को किया गिरफ्तार

बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (विष्णुदत्त धीमान)। कृषि दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से परिवारों के नाम से लोन लेकर गबन करने के आरोपी ग्राम सेवा सहकारी समिति सथाना के सहायक व्यवस्थापक कैलाश चन्द तेली को विजयनगर थानाधिकारी करण सिंह ने मय टीम गिरफ्तार किया। विजयनगर थानाधिकारी करण सिंह ने बताया कि रामनाथ जाट निवासी विजयनगर का न्यायालय से एक इस्तगासा प्राप्त हुआ जिसमें शाखा प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम सथाना व मुख्य कार्यालय अजमेर में व्यवस्थापक कैलाश चन्द तेली ने परिवारी को सावधी जमा योजना की जानकारी देते हुये बचत जमा राशि को निवेश करने के लिये सावधी जमा एफडीआर कराने का प्रस्ताव दिया, इस पर वह प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये सावधी जमा एफडीआर कराये जाने को सहमत हो गया। कैलाश के कहेनुसार उसने सावधी जमा एफडीआर में 15.2.2021 तक कुल 253415 रूपये 15.2.2022 तक एक वर्ष के लिये 6.30 प्रतिशत ब्याज दर से जमा करावाये। जब एक वर्ष पूरा होने पर संस्थान जाकर प्राप्त होने वाली सावधी जमा राशि को मांग को तो आरोपी ने उसे कहा कि वर्तमान में हमारे पास फण्ड नहीं हैं इसलिए एस एफडीआर को 1 वर्ष के लिये और बढ़ा तो और कहा कि 15.2.2023 को तुम्हारी राशि 287161 रूपये का भुगतान कर देंगे जिस पर रामनाथ राजी हो गया। पुलिस ने प्रकरण सं. 143/2024 धारा 420, 406, 120बी भादस पुलिस थाना



विजयनगर पर दर्ज कर आरोपी कैलाश चन्द तेली को गिरफ्तार कर लिया और अन्य मुल्जिमाओं की तलाश जारी है।

गंगारार थाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही कटेनर में सिंग्रं के कार्टूनो की आड़ में अवैध शराब की तस्करी एक व्यक्ति गिरफ्तार, विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब के कुल 243 कार्टून व तस्करी में प्रयुक्त कटेनर जब्त

बढ़ता राजस्थान

चित्तौड़गढ़, (नि.स.)। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ जिले की गंगारार थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक कटेनर में सिंग्रं के कार्टूनो की आड़ में छुपाकर परिवहन किये जा रही विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब के कुल 243 कार्टून जब्त कर कटेनर चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिले में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्यवाही के तहत थानाधिकारी गंगारार लक्ष्मणलाल डंगी (पुनि) व पुलिस जासा एएसआई शिवलाल, हेड कानि. प्रमोद कुमार, कानि. रोहितोश, गणपत, हरभान सिंह, मनोज कुमार व भेरूलाल द्वारा हाईवे रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक सदिग्ध कटेनर को रूकवाया जाकर नियमानुसार कटेनर की तलाशी ली गई तो कटेनर में सिंग्रं के कार्टूनो की आड़ में छुपाये हुए अवैध शराब के कार्टून मिले। कार्टूनो की गिनती की गई तो कुल 243 अलग अलग ब्रांड की शराब की बोतले व पत्रे भरे हुए पाये गये जिन्हें जब्त कर कटेनर चालक डीग भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाने के जोत रूहल्ला निवासी 20 वर्षीय हलीम खा पुत्र जमशेद खां मेव को गिरफ्तार किया गया एवं अवैध शराब में परिवहन में उपयोग किये जा रहे कटेनर को जब्त किया जाकर अवैध शराब खरीद फरोख्त व परिवहन के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है।



बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित

बढ़ता राजस्थान

जिला बाल संरक्षण इकाई मोहम्मद अशफाक खान ने बताया गया कि भारत सरकार द्वारा बाल विवाह जैसे अभिशाप को रोकथाम के लिए आज पूरे देश में बाल विवाह मुक्त अभियान का आरंभ किया जा रहा है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बालिका आवासीय विज्ञानय तेली खेड़ा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम एवं जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। कार्यक्रम में सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं

की क्षमता को पूर्णता से साकार करेगा। सहायक निदेशक ने बालिकाओं को बाल विवाह मुक्त के लिए शपथ दिलायी। बाल विवाह मुक्त कार्यक्रम के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा ने बताया कि बाल विवाह एक अभिशाप है जिसके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, बाल विवाह मुक्त के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए।

फर्जी जिला स्पेशल टीम के सदस्य बन लूटपाट के आरोपी गिरफ्तार घटना में प्रयुक्त वाहन किया जब्त

बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (नि.स.)। ब्यावर सदर पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थानाधिकारी गंगाराम खावा ने दोनो को जोधपुर हाईवे स्थित कारगिल पेट्रोल पम्प से गिरफ्तार किया। सदर थानाधिकारी गंगाराम खावा ने बताया कि गत 23-24 नवम्बर परिवारी आजाद काठात ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि वह प्रभु की बगीचा ब्यावर में शादी के बाद जब वह स्कूटर से घर जा रहा था तो रास्ते में कारगिल पेट्रोल पम्प से पहले हाईवे पर एक सफेल बोलरो से एक आदमी उसके पास आकर बोला हम स्पेशल टीम से हैं। वह मारपीट करके मेरी स्कूटी ले जाने का प्रयास करने लगा। जब परिवारी चिल्लाया जो आरोपी कैम्पर गाडी में बैठकर भाग गये। जिला स्पेशल टीम व पुलिस थाना ब्यावर सदर ने घटना की सूचना पर दो सदिग्ध परमेश्वर सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति रावत (25) निवासी ग्राम झाला की चौकी कायाभीला पुलिस थाना बर और संदीप डिडवानिया उर्फ सन्जु जाति रेगर (22) निवासी सुभाषनगर पुलिस थाना रामगंज अजमेर जिला अजमेर को डिटैल कर पुछताछ की तो उन्होंने जिला स्पेशल टीम के फर्जी सदस्य बन आमजनों के भ्रम में प्रयुक्त वाहन लूटपाट करने के प्रयास की वारदात को स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन बोलरो कैम्पर को जब्त कर लिया वही घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी कर रही हैं।



बाल विवाह के खिलाफ हम सबको मिलकर करना होगा काम : श्याम सिंह आईपीएस

बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (विष्णुदत्त धीमान)। बुधवार 27 नवम्बर को जस्ट राइट एनजीओ के तत्वावधान में बाल विवाह मुक्त भारत पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ब्यावर श्यामसिंह, आई पी एस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा, सदर थाना पुलिस थानाधिकारी गंगाराम खावा, पु.नि. कार्यालय एवं रिजर्व पुलिस लाईन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। बाल विवाह मुक्त में जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुप्रथा को समाप्त करना और सभी बच्चों को समान अधिकारी शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य का अवसर प्रदान करना है। जिससे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करती है कि हम इस सामाजिक बुराई के खिलाफ मिलकर काम करेंगे।



प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लेकर सीएमएचओ ने किया निरीक्षण

माँ वाउचर योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर दिये निर्देश

बढ़ता राजस्थान

राजसमंद (सुरेश बागोरा)। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लेकर सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वणई का औचक निरीक्षण किया तथा वहां गर्भवती महिलाओं को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया। सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत लक्षित सभी गर्भवती महिलाओं को आशा के माध्यम से मोबिलाइज कर गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएँ प्रदान करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिये संचालित माँ वाउचर योजना के तहत सभी पात्र गर्भवती महिलाओं को वाउचर जारी करने तथा नियमित मॉनिटरिंग कर योजना से लाभान्वित करने के



लिये निर्देशित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिये आवश्यक सभी उपकरणों, दवाइयों की सुनिश्चिता करते हुए गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान के लिये निर्देशित किया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी प्रभारी से चिकित्सा संस्थान पर प्रसव के लिये प्रेरित किया जिससे गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बड़े

पारस देवी प्रोडक्शन की नई फिल्म 'पोइंट जीरो' की घोषणा, इशिका जैन निभाएंगी मुख्य भूमिका

राजस्थानी संस्कृति और देशभक्ति को प्रस्तुत करने वाली फिल्म 'पोइंट जीरो' में बालीवुड और स्थानीय कलाकारों का होगा समावेश, निर्माता ममता जैन और निर्देशक क्षितिज कुमार का दावा

बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (विष्णुदत्त धीमान)। पारस देवी प्रोडक्शन की अगली फिल्म 'पोइंट जीरो' जिसकी निर्माता ममता जैन हैं और इस फिल्म को राजस्थानी फिल्मों के निर्देशक क्षितिज कुमार ने लिखा है। इस पूरी फिल्म में अभिनेत्री इशिका जैन की भूमिका प्रमुख रहेगी। लेखक व निर्देशक क्षितिज कुमार ने बताया कि यह फिल्म राजस्थानी फिल्मों के साथ-साथ देशभक्ति व देशभक्ति से ओत प्रोत होगी। उन्होंने बताया कि यह फिल्म राजस्थानी की संस्कृति और परम्परा को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करेगी जिसमें राजस्थानी भाषा को पुनः विश्वव्यापी बनाने का प्रयास किया जायेगा। निर्देशक व लेखक क्षितिज ने बताया राजस्थान की धरती शूरवीरों की धरती है। इस धरती पर कई महापुरुषों व देश को आजाद करने

वाले महापुरुषों का भी प्रयास राजस्थान में रहा है। इस फिल्म में राजस्थानी संस्कृति के साथ-साथ अन्य राज्यों की संस्कृति को भी दिखाने का प्रयास किया जायेगा। इस अवसर पर पारस देवी प्रोडक्शन की निर्माता ममता जैन ने बताया कि इस फिल्म के निर्माण पर भले ही कितना पैसा खर्च हो लेकिन देशवासियों के लिये यह एक फिल्म अपनेआप में प्रेरणादायक होगी। इस फिल्म में कई स्थानीय व बालीवुड के कलाकारों का भी चयन किया गया है। बुधवार को पारस देवी प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म 'पोइंट जीरो' की अभिनेत्री इशिका जैन ने बताया कि वह इस फिल्म में पूरी मेहनत के साथ बनने का प्रयास करेगी। फिल्म की प्रमुख अदाकारा होने के कारण इस फिल्म में जिस-जिस रूप में अपनी अदाओं की छटा बिखेरेंगी उससे ना केवल आम व्यक्ति लाभान्वित होगा बल्कि



उसमें एक विशेष शालीनता के साथ-साथ संस्कृति को भी दर्शाया जायेगा। इस फिल्म के प्रचार-प्रसार हेतु पारस देवी प्रोडक्शन ने पूरे भारत में अपने-अपने ढंग से व्यवस्था की है। फिल्म के सभी निर्माता, निर्देशक, लेखक व अभिनेत्री आदि ने आश्वस्त करके कहा आने वाले वर्ष के मध्य में इस फिल्म का विधिवत शीर्षण बड़े पर्दे पर होगा। सभी ने अपील भी की है इस फिल्म को सर्वाधिक प्यार देकर इसे देखा जाये।

पीड़ित प्रतिकर बैठक आयोजित

पीड़ितों को 10 लाख रुपए की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश

राकेश शर्मा

सवाई माधोपुर (बढ़ता राजस्थान)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में बुधवार को देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलवाने के लिए जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण के साथ मॉडिंग का आयोजन किया गया। पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत अंतिम स्तर के दो एवं अंतरिम स्तर के एक प्रकरण सहित कुल तीन प्रकरणों में प्रार्थना पत्र प्रतिकर हेतु लंबित थे, जिसमें समिति



द्वारा हत्या के अंतिम स्तर के दो प्रार्थना पत्रों में सर्वसम्मति से 10 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए। साथ ही जेलों के निर्माण हेतु निर्धारित मापदण्डों

को पूरा करने के लिए गठित जेल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा आयोजित की जाने

न्यायालय, मौनाक्षी जैन न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, पंकज नरुका न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आशुतोष सिंह आढ़ा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शुभम चौधरी जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, ममता गुप्ता पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर, श्रीदास सिंह राजावत अध्यक्ष बार एसोसिएशन, जितेंद्र शर्मा लोक अभियोजक, जेलर जिला कारागृह सवाई माधोपुर महेश चन्द शर्मा उपस्थित रहे तथा साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वचुअली रूप से डॉ. गौरव सैनी जिला कलेक्टर गंगापु सिटी मॉडिंग में उपस्थित रहे।

दबंगो की टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, रूपाखेडा टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई करतूत टोल मैनेजर की शिकायत पर कुंवारीयाने पर किशन गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज



बढ़ता राजस्थान

राजसमंद (सुरेश बागोरा)। राजसमंद के कुंवारीयाने क्षेत्र स्थित रूपा खेड़ा टोल नाके पर बीती रात दबंगों द्वारा गुंडागर्दी करने का वीडियो सामने आया है। टोल पर मौजूद महिला कर्मी ने आरोप लगाया कि किशन गुर्जर ने रात्री में टोल पास करते समय गाली गलौज की और बूम बैरियर पार्ट को नुकसान पहुंचाया। वही टोल पर मौजूद युवकों से भी गाली-गलौज और धक्का मुक्का की। दारु पीने टोल पर मौजूद युवकों को जान से मारने की धमकीया भी दी है। आरोपी युवक इतने पर ही नहीं रुका और गाड़ी को बैक लेकर फिर से बूम बैरियर पार्ट पर नुकसान पहुंचाया। करीब 5 मिनट तक युवक किशन गुर्जर वहां गुंडागर्दी करता रहा और उसके बाद गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। घटना के सीसीटीवी फुटेज कुंवारीयाने पर देकर टोल मैनेजर द्वारा आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

महावीर इंटरनेशनल केलवा ने स्थानिय विद्यालय में भेंट की दरिया



बढ़ता राजस्थान

राजसमंद (नि.स.)। महावीर इंटरनेशनल संस्था केलवा ने भामाशाह राजेंद्र कोठारी के आर्थिक सहयोग से धोलीबावडी स्थित राजकीय विद्यालय में बच्चों के लिये 21 दरिया व जरूरत मद बच्चों को सामग्री उपलब्ध कराई विद्यालय परिवार की और तिलक व ईकलाई से स्वगत किया गया इस अवसर पर गर्वनिंग काउंसिल सदस्य महेंद्र कोठारी (विकास) महावीर इंटरनेशनल केलवा, अध्यक्ष सुरेश सांखला, कोषाध्यक्ष सुनिल बोहरा राजेंद्र कोठारी, अनिल कोठारी, नरेन्द्र कोठारी, कमलेश पालीवाल एवं स्कुल स्टाफ आदि उपस्थित रहे।

आमेत ब्लॉक में होगा युवा महोत्सव : रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, नोडल केंद्र पर कर सकेंगे आवेदन

बढ़ता राजस्थान

राजसमंद (सुरेश बागोरा)। आमेत उपखंड मुख्यालय पर युवा महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन होगा। युवा महोत्सव के नोडल प्रभारी शैतान सिंह ने बताया-राजस्थान सरकार द्वारा युवा मामले खेल विभाग के निर्देशन में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किया जा रहे हैं।

सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत

गंगापुसिटी-जयपुर रोड पर बाढ़ कला गांव के पास हुआ हादसा



बढ़ता राजस्थान

गंगापुसिटी (नि.स.)। जयपुर हाईवे पर बाढ़ कला गांव के पास बुधवार सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोनू (22) पुत्र पुरुषोत्तम वैष्णव, मनमोहन (20) पुत्र सुराजी लाल वैष्णव के रूप में हुई है। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची सदर

थाना पुलिस ने शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। सदर थाने के एएसआई दाताराम ने बताया कि बुधवार सुबह मृतक बाढ़ गहनोली गांव से बाइक पर सवार होकर पानी की मोटर का सामान लेने गंगापुसिटी आ रहे थे। रास्ते में सुबह 10 बजे बाढ़ कला गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रैलर से टकरा गई। टकरा इतनी जबरदस्त थी कि बाइक क्षतिग्रस्त होकर गिर गई। दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को गंगापुसिटी के जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

5 हजार रूपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिराफ्तार

बढ़ता राजस्थान

ब्यावर (विष्णुदत्त धीमान)। अपहरण कर हत्या करने के 5 हजार रूपये के इनामी आरोपी को ब्यावर सिटी पुलिस थानाधिकारी विजय सिंह, उपनिरीक्षक व डीएसटी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार 17 जून 2024 को सुरेश पुत्र वजु सोलंकी जाति कोली (29) निवासी देवधरी पुलिस थाना विच्छिया जिला राजकोट गुजरात हाल हैड कानि नं. 122 पुलिस थाना आटकोट राजकोट ग्रामीण गुजरात जो प्रभारी डीपीटी आईजी पुलिस

राजकोट ग्रामीण द्वारा एक बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट 00/2024 धारा 302, 364, 114 आईपीसी पुलिस थाना आटकोट जिला राजकोट ग्रामीण कुल दस्तावेज 28 मय एक वीडियो सीडी के अजखुद उपस्थित थाना होकर प्राप्त हुई कि बमुकाम पुलिस थाना आटकोट राजकोट ग्रामीण गुजरात में प्रार्थी काना पुत्र हरिसिंह रावत (22) निवासी बाडिया जगा पुलिस थाना साकेत नगर जिला ब्यावर ने रिपोर्ट पेश की कि 8 जून शाम वह अपने चाचा देवीसिंह सूरजमल दोनो ब्यावर में सिटी सिनेमा के पास खडे थे। वहा प्रदीप व पोला ने

एक अज्ञात काले रंग की स्कॉर्पियो में बैठाकर ले गये और एक रात तक अपने निवास स्थान पर रखकर आरोपी रामा द्वारा गुजरात में संचाजित जामाली स्थित कुए पर ले गया जहां उसके भतीजे व अन्य चार आरोपियों द्वारा मारपीट करने के बाद देवी सिंह की मृत्यु होने पर घटनास्थल से देवी सिंह की लाश को 60-65 किलोमीटर दूर विरनगर से कनेसरा के जंगलों में पटक दिया जो पुलिस थाना आटकोट राजकोट ग्रामीण गुजरात को प्राप्त हुई। इस पर जांच के बाद थाना हाजा जीरा नम्बरी एफआईआर 17जून 2024 को प्रकरण संख्या

पंजीबद्ध किया गया और आरोपियों की तलाश की गई। आरोपी रामा के बारे में सूचना देने वाले या पकडवाने वाले को जिला पुलिस अधीक्षक ब्यावर ने 5 हजार रूपये का इनाम देने की घोषणा की थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिलने पर ब्यावर सिटी थाना एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये प्रकरण में वांछित इनामी आरोपी रामा पुत्र पेमा मेहरात (41) निवासी नाहरखेडा बाडिया चिताड पुलिस थाना सेंदडा जिला ब्यावर को गिरफ्तार कर लिया गया।

भारतीय संविधान की जिला स्तरीय प्रदर्शनी का विद्यार्थियों ने किया अवलोकन

राकेश शर्मा

सवाई माधोपुर (बढ़ता राजस्थान)। जिला प्रशासन एवं कार्यालय सहायक निर्देशक सूचना एवं जनसम्पर्क सवाई माधोपुर के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने की गरिमापूर्ण यात्रा एवं 10वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय सवाई माधोपुर में लगाई गई जिला स्तरीय संविधान प्रदर्शनी का बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानडाउन तथा राजकीय बालिका



उच्च माध्यमिक विद्यालय मानडाउन के विद्यार्थियों ने अवलोकन किया। उन्हें इस दौरान संविधान की महत्ता व संविधान निर्माण

की जानकारी सभी विद्यार्थी को सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय के उप निर्देशक हेमन्त सिंह ने दी।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की हुई जाँच, मिला उपचार

माँ वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिला सोनोग्राफी के लिए वाउचर..

बढ़ता राजस्थान

जयपुर प्रथम। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। जिसमें उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका ईलाज करने के साथ पोषण युक्त आहार की जानकारी प्रदान की गई। गौरतलब है कि राज्य स्तर के निर्देशानुसार अब प्रत्येक माह की 09, 18 व 27 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार ने बताया कि जिले के चिकित्सा संस्थानों पर मनाए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा माँ वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी कराने के लिए माँ वाउचर दिये गए

साथ ही अन्य जांच व उपचार किये गए। उनके रक्तचाप, शर्करा के स्तर, वजन, लंबाई, हीमोग्लोबिन, रक्त, एचआईवी जांच, हृदय स्पंदन आदि की जांच कर उनको गर्भ में पल रहे शिशु और स्वयं की देखभाल के विषय में बताया गया और आई.ए.ए.ए. कैल्शियम तथा अन्य आवश्यक दवाई उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर चिकित्साकर्मियों द्वारा उन्हें पोषिक आहार के महत्व को बताते हुए पोषणयुक्त आहार लेने हेतु जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच सुविधाएँ देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता है, जिससे गर्भावस्था व प्रसव के दौरान जोखिम को कम करने में मदद मिल सके। अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को एक स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। गर्भवती महिलाओं को रोगों, उपचार एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।

आयुर्वेद के अनुसार अच्छी और सुकून भरी नींद के लिए सोने से पहले करें ये काम



क्या आप अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं? आजकल के बढ़ते तनाव, चिंता और डिप्रेशन की वजह से अधिकतर लोग अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं। सभी को कभी न कभी किसी वजह से नींद न आने की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। अनिद्रा कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण भी बनता है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, इससे शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस स्थिति में आप चाहें तो आयुर्वेद की मदद ले सकते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से आप अपनी अनिद्रा की समस्या को प्राकृतिक तरीके से दूर कर सकते हैं।

पैर धोएं : आयुर्वेद के अनुसार रात को पैर धोने से दिनभर की सारी थकान, चिंता और तनाव दूर हो जाता है। अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, तो रात को सोने से पहले पैरों को जख्म धोएं। इसके लिए आप एक टब में गर्म पानी लें, इसमें 10 मिनट तक अपने पैरों को डालकर रखें। इससे शरीर को आराम मिलता है और स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। इस तरह से पैर धोने से आराम मिलता है, नेगेटिविटी दूर होती है और रात को नींद बहुत अच्छी आती है। टब में पैर डालकर रखने से रिलेक्स फील होता है, सुकून भरी नींद आती है।

लंबी गहरी सांस लें : लंबी गहरी सांस लेना अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए एक काफी अच्छा आयुर्वेदिक उपाय हो सकता है। अगर आपको रात के समय अच्छी नींद नहीं आती है या बीच-बीच में नींद टूटती है, तो ऐसे में आप सोने से पहले लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आप ओम के जाप के साथ लंबी गहरी सांस भी लें। ओम शब्द बोलने से मन शांत होता है, सकारात्मक होता है, जिससे अच्छी नींद आती है। इसके लिए आप लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें।

शरीर की मालिश करने से आगूनी अच्छी नींद : अच्छी नींद के लिए रात को सोने से पहले शरीर की मालिश करना बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए आप गर्म तासीर का कोई तेल लें और इससे शरीर की अच्छी तरह से मालिश करें। आप चाहें तो सिर्फ माथे पर भी थोड़ा गर्म तिल का तेल लगा सकते हैं। इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है, दिमाग भी शांत होता है। रात को सोने से पहले रोजाना ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी।

गैजेट्स का इस्तेमाल करने से बचें : अगर आप रात को अच्छी और सुकून भरी नींद चाहते हैं, तो रात को 7 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें। दरअसल, ब्लू लाइट के यूज से स्लीपिंग पैटर्न गड़बड़ा जाता है। देर रात तक गैजेट्स का इस्तेमाल करने का असर नींद पर पड़ता है। ब्लू लाइट नींद को डिस्टर्ब करती है। अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए आप देर रात तक गैजेट्स का इस्तेमाल करने से बचें। नींद अच्छी आने के लिए आप मन को शांत करने की कोशिश करें। मन को शांत करने, तनाव को कम करने के लिए आप धीमी आवाज में गाने सुन सकते हैं।

मेडिटेशन करें : रात को सोने से पहले अगर रोजाना मेडिटेशन या ध्यान लगाया जाए, तो इससे अनिद्रा की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। मेडिटेशन तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। इसके लिए आप सोने से आठ घंटे पहले किसी शांत वातावरण में जाएं, पश्चात्सम में बैठें और अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख दें। आप चाहें तो नमस्कार की मुद्रा में भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद लंबी गहरी सांस लें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन में अच्छे विचारों लाने का प्रयास करें। मन को शांत करें। आप चाहें तो मेडिटेशन करते हुए धीमी आवाज में कोई धुन भी सुन सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए हमेशा शांत, साफ वातावरण का ही चुनाव करें। प्रकृति के साथ ध्यान लगाने से तनाव, स्ट्रेस और चिंता दूर होती है। साथ ही अच्छी और सुकून भरी नींद भी आती है।

अंजीर के पत्तों से होते है ये फायदे

अंजीर के पत्तों का उपयोग चाय के रूप में किया जा सकता है, यह चाय कई बीमारियों के इलाज में रामबाण हो सकता है। अंजीर के पत्ते चौड़े और बड़े आकार के होते हैं। इसके पेड गर्म देशों में पाए जाते हैं। अंजीर के पत्तों में कई गुण होते हैं, जो शरीर को लाभ पहुंचाते हैं और शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखते हैं।



अंजीर के पत्तों में मौजूद पोषक तत्व

अंजीर के पत्ते अंजीर की तरह ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसके पत्तों में विटामिन और मिनरल काफी अच्छी मात्रा में होते हैं। अंजीर के पत्तों में फोलिक एसिड, मैंगनीज, मैग्नीशियम और कॉपर पाया जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अंजीर के पत्तों के इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए इनकी चाय पी जा सकती है। अंजीर के पत्तों की चाय स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होती है।

अंजीर के पत्तों का उपयोग

अंजीर के पत्तों का उपयोग चाय के रूप में किया जा सकता है। यानी अंजीर के पत्तों की चाय बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। साथ ही इसके पत्तों की चाय को बनाना भी बहुत ही आसान है। अंजीर के पत्तों की चाय बनाने के लिए आपको अंजीर के पत्ते, पानी और शहद की जरूरत होगी।

हड्डियों को मजबूत बनाए

अंजीर के पत्तों में काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। आजकल अधिकतर लोग जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द की समस्या से परेशान हैं, इसकी मुख्य वजह शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। इस स्थिति में अंजीर के पत्तों की चाय पीना लाभदायक होता है। अंजीर के पत्तों में मौजूद

डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए अदरक के रस का करें इस्तेमाल

आज के समय में अक्सर लोग चेहरे के डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, दागें आदि समस्याओं से परेशान रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी त्वचा अच्छी और निखरी हुई बने। ऐसे में वे हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वे अपनी दिनचर्या में नए-नए घरेलू उपचारों को जोड़ते हैं। इससे अलग वे मार्केट से नए-नए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के कारण त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि अदरक का रस न केवल मुहालों की समस्या को दूर करने में उपयोगी है बल्कि यह डार्क स्पॉट की समस्या से भी छुटकारा दिला सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप अदरक के रस का किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं।

अदरक का रस और जैतून का तेल

इस मिश्रण को बनाने के लिए आपके पास अदरक के रस के साथ-साथ जैतून का तेल और चीनी का होना जरूरी है। अब आप एक कटोरी में तीनों को अच्छे से मिलाएं और चेहरे पर सफुलर मोशन में लगाएं। हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करें। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक मिश्रण को चेहरे पर लगा छोड़ दें। थोड़ी देर बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा आप हफ्ते में एक या दो बार कर सकते हैं। बता दें कि ये मिश्रण चेहरे के काले निशानों से राहत दिला सकता है।

अदरक का रस और दूध का पेस्ट

चेहरे पर मुहालों की समस्या को दूर करने में अदरक का रस आपके बेहद काम आ सकता है। ऐसे में आप अदरक के रस के साथ दूध मिलाएं और बने मिश्रण को रूई के माध्यम से प्रभावित स्थान पर लगाएं। आप इस मिश्रण को 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें। उसके बाद अपने चेहरे को साधारण पानी से धो लें। ऐसा करने से पिंपल्स की समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

अदरक का रस और दही

इस मिश्रण को बनाने के लिए आपके पास अदरक के रस के साथ दही का होना भी जरूरी है। अब आप एक कटोरी में एक चम्मच

अदरक का रस और एक चम्मच दही को मिलाएं और बने मिश्रण को रूई के माध्यम से काले धब्बों पर लगाएं। थोड़ी देर बाद मिश्रण को साधारण पानी से धो लें। ऐसा करने से चेहरे के काले धब्बों से छुटकारा मिल सकता है। बता दें कि आप इस लोप का इस्तेमाल हफ्ते में दो या तीन बार कर सकते हैं।

अदरक का रस और शहद

इस मिश्रण को बनाने के लिए आपके पास अदरक के रस के साथ शहद का होना भी जरूरी है अब आप एक कटोरी में कढ़कस किया हुआ अदरक ले और उसका रस निकाल ले और उस रस में शहद को अच्छे से मिलाएं अब बने मिश्रण को 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं 20 मिनट बाद अपने चेहरे को साधारण पानी से धो लें ऐसा करने से पिंपल्स की समस्या से फायदा मिल सकता है।

रोज सुबह उठते ही करें वैकिंग रेस्ट की प्रैक्टिस, आपको दिनभर तनाव मुक्त रखने में ये तकनीक कैसे है मददगार

आपने कभी छोटे से बच्चे को सोते हुए देखा है? जिसे न जल्दी उठने की चिंता न किसी काम की टेंशन। जबकि वयस्क लोग अक्सर कैसे उठते हैं- हड़बड़ाते हुए जल्दबाजी में। इस व्यवस्था का असर न सिर्फ दिमाग, बल्कि शरीर और सेहत पर भी पड़ता है। हम यह कह सकते हैं कि जितना ज्यादा मॉडर्न युग बनता जा रहा है उतनी ही अधिक हमारी स्ट्रेस और थकान बढ़ती जा रही है। हम दिन की शुरुआत ही चिंतित होने से करते हैं। पहले के जमाने में सुबह की शुरुआत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और इसलिए ही सुबह-सुबह वाक आदि पर जा कर अपने शरीर को एक्टिव किया जाता था। लेकिन आज के समय में हम अपने प्रोजेक्ट आदि की डेड लाइन पूरी करने के चक्कर में काफी स्ट्रेस रहते हैं और उठते ही काम पर लग जाते हैं। इस प्रकार हम अपने शरीर को समय ही नहीं दे पाते हैं और काफी थकान से भरे रहते हैं। इसी थकान और स्ट्रेस को कम करने के लिए वैकिंग रेस्ट ट्रेड करने रहा है।

पहले न चल करके की लाइट जलाएं : क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब बरसात के दिन होते हैं या कोहरे वाले दिन, तो आपको अधिक सुस्ती सी महसूस होती है। उठने का मन नहीं करता उसका कारण है कि आपके शरीर के अंदर की क्लॉक



को रिसेट होने में टाइम लगता है।

फोन से बनाए दूरी : अधिकांश लोगों को आदत होती है कि उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल सेट को चेक करते हैं। जैसे-जैसे फोन चेक करते हैं, फेसबुक या ट्विटर चलाते हैं। इस कारण आपका काफी समय खराब हो जाता है और से शुरुआत होती है स्ट्रेस की। यदि आप सुबह-सुबह अपने सेल के साथ कम समय बिताएंगे तो आपके समय भी ज्यादा नजर आएगा। किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट भी नहीं होगी।

स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें-स्ट्रेचिंग करने से आपकी मांसपेशियों में अच्छी तरह से ब्लड फ्लो होगा और सुस्ती दूर भागेगी। अपनी सुबह की शुरुआत में अपने दिमाग को केवल दो तीन मिनट दें, ताकि इसके अंदर जो भी ख्याल आता है आप उसे समझ सकें। थोड़ी देर तक कुछ न करें

वैकिंग रेस्ट तकनीक

माना कि सोशल मीडिया आदि से आपको एक संतुष्टि की फीलिंग आती है। लेकिन खुद से संतुष्ट रहने के लिए आपको मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा संतुष्टि हमें तब मिलती है जब हम सुबह बिना किसी चिंता के उठते हैं। इसी को वैकिंग रेस्ट बोला जाता है। इसे हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि यह हमारे मस्तिष्क का वो समय होता है जो जब मस्तिष्क बिलकुल शांत होता है। कोई भी हड़बड़ी या नकारात्मक विचार इसके अंदर नहीं होते। इस अभ्यास से आपको जागते हुए भी खाली दिमाग महसूस होगा और यह तकनीक आपके दिमाग को हर उस ख्याल से दूर रखने में मदद करेगी जो इसको प्रभावित कर सकता है। इस तकनीक के माध्यम से चाहे आप घर का काम कर रहे हों, या ऑफिस का या फिर अन्य कोई भी काम कर रहे हों, उस समय भी आपका दिमाग बिलकुल निश्चित रहेगा और कुछ भी नहीं सोएगा।

यह फीलिंग भी आपको काफी रिलेक्स कर देगी। बल्कि ऐसी किसी गतिविधि में खुद को लगा लें जिसमें किसी प्रकार की मानसिक गति शामिल न हो रही हो। अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपका दिमाग इसका आदी हो जायेगा और जो भी चिंता आपको रोजाना खानी जाती है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बेहद फायदेमंद होती है। अगर हम कोविड से आने के पहले की बात करें तो शायद हम कम चिंतित रहते थे और सुबह सुबह मॉर्निंग वाक के लिए भी जाते थे।



पेट और जांघ की चर्बी एक साथ कम करने के लिए रोज करें ये एक्सरसाइज

हम में से ज्यादातर लोग अपने पेट और जांघ की चर्बी से परेशान रहते हैं। होता भी यही है क्योंकि पेट और जांघ के क्षेत्रों में सबसे आसानी से शरीर की चर्बी जमा हो जाती है। दरअसल, शरीर के इन हिस्सों में कई ज्यादातर ट्रांस फैट ही जमा हो जाती है और यहां परतों में जमा चर्बी को घटाना मुश्किल होता है। ऐसे में लोगों की कोशिश रहती है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि पेट की चर्बी और जांघों की चर्बी एक साथ घट जाए।

ब्रिज

ब्रिज में आपको अपने पेट और शरीर में एक पुल जैसा बनाना है। इसमें आपको 15 से 20 बार 2 के सेट में करना है। इसे करते समय आपके पेट पर जोड़ पड़ेगा और सांस तेजी हो जाएगी, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ेगी और तेजी से फैट बर्न होगा। इसी तरह से जांघों की चर्बी के लिए बहुत आसानी से काम करेगी।

अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ लें और एडिजों को अपने नीचे की ओर रखें। ऐसे कि ये आपके पैर कंधे की चौड़ाई से अलग और फर्श पर सपाट होने चाहिए।

-घुटनों से कंधों तक एक सीधी रेखा बनाने के लिए अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं। जैसे ही आप ऊपर आते हैं, अपने पेट और नितंब की मांसपेशियों को कस लें।

-अपने घुटनों को बाहर की ओर न आने दें। -इसी पोज में रहें।



स्क्वाट्स एक्सरसाइज

स्क्वाट्स के रोजाना 15 से 24 बार 2-2 का सेट लगाने से आप कुछ ही दिनों में पेट और जांघ की चर्बी घटा लेंगे। दरअसल, जब आप स्क्वाट्स एक्सरसाइज करते हैं तो, सबसे पहले ये आपके दो हिस्सों पर प्रेशर डालता है और वो है पेट और जांघ की चर्बी। रेगुलर इससे करने से आप महसूस करेंगे कि आपका फैट बर्न हो रहा है और ये दोनों ही हिस्सा पहले कि तुलना में अब कम मोटे हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए

- अपनी पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मुड़े हुए हों और हाथ कानों के पीछे हों।
- अपनी पीठ के निचले हिस्से को फर्श से दबाते हुए, अपने कंधे को फर्श से 3 इंच से अधिक न उठाएं और धीरे-धीरे नीचे करें।
- फिर इसे करते हुए ही आराम में आ जाएं।

स्टमक क्रंचेस


स्टमक क्रंचेस जैसे तो पेट पर बल डालता है और बेली फैट घटाने का उपाय है। पर ये जांघों की चर्बी को भी कम करता है। साथ ही इसे करने से आप मजबूत एक्स पा सकते हैं। इसे भी रोजाना 15 से 24 बार 2-2 की सेट में करें।

- अपनी पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मुड़े हुए हों और हाथ कानों के पीछे हों।
- अपनी पीठ के निचले हिस्से को फर्श से दबाते हुए, अपने कंधे को फर्श से 3 इंच से अधिक न उठाएं और धीरे-धीरे नीचे करें।
- फिर इसे करते हुए ही आराम में आ जाएं।

लेग इन एंड आउट

लेग इन एंड आउट एक गेम जैसी एक्सरसाइज है पर बहुत फायदेमंद है। ये आपके बेली फैट घटाने के साथ जांघों की चर्बी घटाने में भी मददगार है। साथ ही ये लोअर एक्स, अपर एक्स, ग्लूटस, हैमस्ट्रिंग और शरीर के हर हिस्से के लिए फायदेमंद है।

- अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। अपने पैरों को फर्श से उठाएं और थोड़ा पीछे झुकें।
- अपने दोनों पैरों को अंदर करें। साथ ही, अपने ऊपरी शरीर को अपने घुटनों के करीब लाएं।
- ऐसे ही एक बार पैर बाहर शरीर अंदर, और एक शरीर बांधे और पैर अंदर करते हुए एक्सरसाइज करें।
- फिर शुरुआत से करें और ऐसे ही 20 बार दो-दो के सेट लगाएं।



अजमेर-दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाली याचिका पर सुनवाई कोर्ट ने मामले को सुनने योग्य माना; दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस

बढ़ता राजस्थान

अजमेर। अजमेर की खाजा मोड़नुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य माना है। यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई। सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने सुनने योग्य माना और अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर: हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मतलब होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है।



जहां शिव मंदिर होता है, वहां झरना, पेड़ आदि जरूर होते हैं। पानी वहां जरूर होता है। ऐसे में पुरातत्व विभाग से भी अपील की है कि वे यहां जांच करें। सुनवाई के दौरान भगवान शिव के बाल स्वरूप की तरफ से एडवोकेट रामस्वरूप बिश्नोई और ईश्वर सिंह ने बहस की।

38 पेज का वाद दिया

दिल्ली के एडवोकेट रामस्वरूप बिश्नोई ने बताया- 38 पेज का वाद पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि खाजा मोड़नुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। दरगाह की बनावट और शिव मंदिर के प्रमाण के संबंध में भी सबूत पेश किए गए हैं। दरगाह परिसर का एएसआई से सर्वे कराने की अपील की है। याचिका में मध्य प्रदेश में धार इलाके की भोजशाला, बनारस और अन्य जगहों का उदाहरण

भी दिया गया है। वाद में दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और पुरातत्व विभाग को पक्षकार बनाया गया है।

शारदा की किताब का हवाला दिया

दावे में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर: हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। इस किताब में जज ने मौजूदा इमारत में 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश बताए थे। इसमें एक तहखाना या गर्भगृह है, जिसमें शिवलिंग बताया गया था। किताब के अनुसार, यहां ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना करता था। वाद में दरगाह कमेटी ने क्षेत्र में किए गए निर्माण को अवैध बताते हुए कब्जे हटाने और मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार दिलाने की मांग की गई है।

राजस्थान में तीन दिन कोहरे का अलर्ट हवा के कारण सर्दी बढ़ी, शेखावाटी में तापमान 10 डिग्री से नीचे आया

बढ़ता राजस्थान

जयपुर। राजस्थान में तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है। कल राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान में गिरावट हुई। इससे रात में सर्दी बढ़ गई। शेखावाटी एरिया में रात का तापमान फिर से सिंगल डिजिट में आ गया। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने राज्य के उत्तरी जिलों में 29 नवंबर तक कोहरा भी छाने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 32.6 डिग्री बाहुमेर और 32 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज हुआ। जालोर में 31.9, जोधपुर 31.4, बीकानेर में 30.2 और भीलवाड़ा में 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में आज दिन में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

जयपुर में रात के तापमान में गिरावट

पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तापमान दिन में भले ही बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले गए हो, लेकिन अब शेखावाटी के जिलों में वापस उत्तरी हवा चलनी शुरू हो गई। जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई। सीकर में कल रात न्यूनतम तापमान करीब 2.5 डिग्री गिरकर 8.5 डिग्री



सेल्सियस पर दर्ज हुआ। चूरू में भी न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस और फतेहपुर में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में भी न्यूनतम तापमान 2 डिग्री गिरकर 13.5 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ।

अब आगे क्या?

जयपुर मौसम विज्ञान केन्द्र ने राज्य अधिकांश हिस्सों में अगले दो-तीन दिनों में कोई खास परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई है। उत्तरी राजस्थान के

हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनूं के एरिया में 27 से 29 नवंबर तक कहीं-कहीं सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना जताई है। इन जिलों के तापमान में भी मामूली गिरावट होने के साथ थोड़ी सर्दी बढ़ सकती है।

आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन संविधान से धोखा : सुप्रीम कोर्ट

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरक्षण का फायदा उठाने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा है। अदालत ने यह फैसला 26 नवंबर को उस केस में सुनाया, जिसमें एक महिला ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में शेड्यूल कास्ट सर्विफिकेट हासिल करने के लिए दावा किया कि वो हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के 3 कमेंट

- जब वास्तव में यकीन हो तब धर्म परिवर्तन करें जस्टिस पंजज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। बेंच ने कहा, किसी को भी धर्म परिवर्तन तब करना चाहिए, जब वो वास्तव में उस धर्म के मूल्यों, विचारों और आस्था से प्रेरित हुआ हो।
- बिना आस्था धर्म परिवर्तन को इजाजत नहीं अदालत ने कहा, अगर धर्म परिवर्तन का मकसद आरक्षण का फायदा उठाने के लिए हो, लेकिन व्यक्ति को उस धर्म पर भरोसा नहीं हो तो इसे इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में ये सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसी और सामाजिक स्वभाव को नुकसान पहुंचाएगा।
- बाइपैज के बाद हिंदू होने का दावा नहीं कर सकते बेंच ने कहा, हमारे सामने जो सबूत रखे गए,



उसके आधार पर बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया और वो लगातार चर्च जाती है, यानी वो धर्म का पालन भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो यह दावा कर रही है कि वो हिंदू है। वो राजगार के लिए स्ट सर्विफिकेट चाहती है। वो दो दावे कर रही है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वे बाइपैज के बाद खुद के हिंदू होने का दावा नहीं कर सकतीं। याचिकाकर्ता महिला से लखनऊ में जिरह की याचिकाकर्ता महिला सेल्वरानी की ओर से वकील एनएस नमिपेई, वी बालाजी, असाइथम्बी एमएएसएम, अतुल शर्मा, सी कन्नन, निजामुद्दीन, बी धर्नजय और राकेश शर्मा ने जिरह की। वहाँ, वकील अरविंद एस, अक्षय गुप्ता, अब्बास वी और थाराणे एस ने तमिलनाडु सरकार का पक्ष रखा।

विपक्ष का वक्फ बिल पर जेपीसी बैठक से बहिष्कार गोगोई बोले- पाल को कोई गाइड रहा; आप का आरोप- राज्य सरकारों की बात नहीं सुनी

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेन्सी)। विपक्षी सांसदों ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी की आठवीं बैठक का बहिष्कार किया। सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदीशका पाल तय प्रक्रिया पूरी किए बिना ही 29 नवंबर को समय सीमा तक कार्यवाही खत्म करके मसौदा रिपोर्ट लोकसभा में पेश करना चाहते हैं। पाल के इस फैसले का सभी विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। हमारी मांग जेपीसी की समय सीमा बढ़ाने की है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संकेत दिया था कि समिति को विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा मंत्री जगदीशका पाल को कार्रवाई को डायरेक्ट कर रहा है।

आप सांसद संजय सिंह ने कहा, स्पीकर ने हमें आश्वासन दिया था कि जेपीसी का समय बढ़ा देंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मसौदा रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। पाल ने दिल्ली सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार, पंजाब सरकार, यूपी सरकार की बात नहीं सुनी। विपक्षी सांसदों ने और क्या कहा YSRCP सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने कहा- भाजपा से गठबंधन न करने वाली सभी पार्टियां जेपीसी का विस्तार चाहती थीं, लेकिन पाल ने अपना काम पूरा करने की बात कही। ताकि रिपोर्ट 29 नवंबर को लोकसभा में पेश की जा सके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- मैंने देखा है कि रिपोर्ट 29 (नवंबर) को दी जानी चाहिए। हम इसे कैसे दे सकते हैं, इसके लिए तय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है।

अश्विनी वैष्णव बोले-वल्गर कंटेंट रोकने के लिए सख्त कानून बने : जहां से ये कंटेंट आ रहा, वहां की और हमारी संस्कृति में बहुत अंतर

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेन्सी)। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही। वैष्णव ने कहा- जिन देशों से ऐसे कंटेंट आते हैं, उनकी संस्कृति हमसे काफी अलग है। वैष्णव ने कहा- वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए पॉलिसीमेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इस विषय पर ध्यान देने और कानून को सख्त करने की जरूरत है। वैष्णव ने बात बुधवार को संसद सत्र के दूसरे दिन लोकसभा सांसद अरुण गोविल के पूछे गए सवाल के जवाब में कही। गोविल ने सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट से युवाओं पर पड़ रहे असर और इसकी रोकथाम के लिए सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए थे।



अरुण गोविल ने पूछा- वल्गर कंटेंट को रोकने के लिए मौजूदा तंत्र क्या है?

सांसद गोविल ने सदन में पूछा कि वल्गर कंटेंट को रोकने के लिए मौजूदा तंत्र क्या है? और क्या सरकार इन कानूनों को और सख्त करने का प्रस्ताव कर रही है? इसके जवाब में वैष्णव ने कहा- सोशल मीडिया के युग में एडिटरियल चेक होना समाप्त हो गया है। पहले प्रेस से जो कुछ भी छपा था, उसे चेक किया जाता था कि यह सही है या गलत, और फिर उसे मीडिया में लाया जाता था।

ब्रिटिश महिला ने अरबों के बिटकॉइन कोड कचरे में फेंके एक लाख टन कचरे में दबी 5900 करोड़ के कोड वाली हार्ड ड्राइव, ढूँढने की परमिशन भी नहीं

बढ़ता राजस्थान

इंग्लैंड (एजेन्सी)। ब्रिटेन में एक महिला ने अपने एक ब्यांफ्रेंड की 5900 करोड़ रुपए के बिटकॉइन कोड वाली हार्ड ड्राइव कूड़े में फेंक दी। डेली मेल से बात करते हाफिना एडी-इवांस नाम की महिला ने बताया- लगभग 10 साल पहले उसके एक ब्यांफ्रेंड जेम्स हॉवेल्स ने उनसे सफाई के दौरान कूड़ा फेंकने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या है। उसे खाने में मेरी कोई गलती नहीं थी। उस हार्ड ड्राइव को कचरे के साथ ही न्यूपोर्ट लैंडफिल में डंप कर दिया गया। वह अभी भी वहाँ 100,000 टन कचरे के नीचे दबी है। हालांकि, अब उसे पाना काफी मुश्किल हो चुका है। हॉवेल्स ने 2009 में 8,000 बिटकॉइन माइन किए थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि वो हार्ड ड्राइव जिसमें क्रिप्टो कोड थे खो चुकी है। एडी-इवांस ने कहा अगर वो हार्ड ड्राइव मिल जाती है तो मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, बस वो उस बारे में बात करना बंद कर दे। इस हादसे ने हॉवेल्स की मेंटल कंडीशन पर बहुत बुरा असर डाला है।

सिटी काउंसिल पर 4,900 करोड़ रुपए का मुकदमा किया

हॉवेल्स ने न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल से कई बार लैंडफिल को खुदाई करने की अपील की है। लेकिन, पर्यावरणीय चिंताओं का हवाला देकर हर बार उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। हॉवेल्स ने न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल पर लैंडफिल तक पहुंचने से रोकने का आरोप लगाते हुए 4,900 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। हॉवेल्स ने वादा किया है कि अगर हार्ड ड्राइव मिल जाती हो जाती है तो वह अपनी प्रायटी का 10% हिस्सा न्यूपोर्ट को ब्रिटेन का दुर्घटित या लास वेगास बनाने के लिए दान कर देंगे। फिलहाल, उनकी कानूनी लड़ाई जारी है, जिसकी सुनवाई दिसंबर की शुरुआत में होनी है। 80 लाख रुपए से ज्यादा एक बिटकॉइन की कीमत अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के बाद क्रिप्टोकॉरेंसी मार्केट में भारी भरकम उछाल देखने को मिला था। बिटकॉइन की कीमत में 30% से ज्यादा की तेजी आई है। भारतीय रुपए में एक बिटकॉइन की कीमत 80 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच गई है।



क्रिप्टोकॉरेंसी का इतिहास

- 1983 में सबसे पहले अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चाम ने ई-कैश नाम से क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी।
- 1995 में डिजिटल के जर्नेर इसे लागू किया गया।
- इस पहली क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी को किसी बैंक से नोटों के रूप में विज्ञान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी।
- यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से एनक्रिप्टेड था। सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी प्राप्त करने वाले को एनक्रिप्टेड-की यानी खास प्रकार की चाबी दी जाती थी।
- इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से पैसा जारी करने वाला बैंक, सरकार या अन्य थर्ड पार्टी ट्रॉजेशन को टैक नहीं कर पाते थे।
- 1996 में अमेरिका की नेशनल सिस्टमेटिक्स एजेंसी ने क्रिप्टोकॉरेंसी सिस्टम के बारे में बताने वाला एक पेपर प्रकाशित किया।
- 2009 में सातोशी नाकामोतो नाम के वर्चुअल निर्माता ने बिटकॉइन नाम की क्रिप्टोकॉरेंसी बनाई। इसके बाद ही क्रिप्टोकॉरेंसी को दुनियाभर में लोकप्रियता मिली।

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया भ्रष्टाचार मामले में बरी यूएस वीजा अप्लाई करने अमेरिकन एंबेसी पहुंचीं, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहीं

बढ़ता राजस्थान

ढाका (एजेन्सी)। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया। इसके बाद खालिदा जिया यूएस वीजा एप्लिकेशन प्रोसेस पूरा करने ढाका में अमेरिकन एंबेसी पहुंचीं। जिया लंबे वक से लीवर, हार्ट और आंखों की

गंभीर परेशानी से जूझ रहीं हैं। 79 साल की जिया को अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में स्पेशल कोर्ट ने पांच साल सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें साल 2018 में ढाका सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 30 अक्टूबर 2018 को हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया था। बाद में उन्हें जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की भी सजा सुनाई गई थी।

अगले महीने ब्रिटेन से अमेरिका जा सकती हैं

बीबीसीजु24 की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने जिया की अपील के आधार पर इस फैसले को पलट दिया। मामले में दो अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया। जिया अगले महीने की शुरुआत में ब्रिटेन जा सकती हैं, जहां से वो अमेरिका या जर्मनी में हाई मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग कर सकती हैं।



बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस

दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र मुद्रण के लिए संपर्क करें।

उच्च क्वालिटी का कागज एवं स्याही
कलर एवं ब्लैक मुद्रण किफायती मुद्रण लागत

Printing Press
• Homeedpura Road Khandwa, Newai, Tank, Rajasthan - 304021
Office
• Badhata Rajasthan, Near Rajkiya Mahavidhyalaya, NH-12, Bypass Newai, Tank, Rajasthan - 304021
(M) +91-9214048888, Phone No. - 01438-223201, 02, 03
• 185/116, "Pratiksha", Sector-18, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur - 302033
(M) +91-9414242258, Phone No. - 0141-2796795
Email: badhatarajasthanprintingpress@gmail.com